

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-19112024-258730
SG-DL-E-19112024-258730xxxGIDHxxx
xxxGIDExxxअसाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 289]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 18, 2024/कार्तिक 27, 1946	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 254
No. 289]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 18, 2024/KARTIKA 27, 1946	[N. C. T. D. No. 254

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-II (विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2024

फा. सं. 20/4/2003/गृ.पु.-II-3523.—जबकि, सुजान मोहिंदर रोड को वाया पुलिस स्टेशन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मथुरा रोड से जोड़ने वाली लेन पर यातायात के भारी प्रवाह के कारण यातायात के सुचारु निर्वहन में बाधा उत्पन्न हो रही है और अन्य सड़क उपयोग कर्ताओं को असुविधा हो रही है;

और जबकि, यातायात के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करने और वाहन चालकों एवं अन्य सड़क उपयोग कर्ताओं की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए सुजान मोहिंदर रोड को वाया पुलिस स्टेशन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मथुरा रोड से जोड़ने वाली लेन पर यातायात के आवागमन को विनियमित करना आवश्यक है;

अतः मैं, शिवे केसरी सिंह, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय-2) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 21 जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए अगले आदेश तक, एतद् द्वारा सुजान मोहिंदर रोड को वाया पुलिस स्टेशन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, मथुरा रोड से जोड़ने वाली लेन पर सभी प्रकार के वाहनों के लिए सुजान मोहिंदर रोड से मथुरा रोड की तरफ एकतरफा मार्ग घोषित करता हूँ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा क्षेत्र के यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चिपकाया जाएगा ।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत का इंगित करते हुए लगाएंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 18/11/2024 को जारी किया गया ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
शिवे केसरी सिंह, उपायुक्त

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2024

F. No. 20/4/2003/HP-II-3523.—Whereas, heavy flow of traffic is causing obstruction in smooth discharge of traffic and inconvenience to other road users on lane connecting Sujana Mohinder Road to Mathura Road via Police Station New Friends Colony, New Delhi;

And whereas, it is necessary to regulate the movement of traffic on the lane connecting Sujana Mohinder Road to Mathura Road via Police Station New Friends Colony to ensure smooth flow of traffic and for convenience and safety of motorists and other road users;

Now, therefore, I, S.K. Singh, Deputy Commissioner of Police/Traffic, (HQ-II), Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 21 of the Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby declare 'One Way' traffic movement on the lane connecting Sujana Mohinder Road to Mathura Road via Police Station New Friends Colony, from Sujana Mohinder Road side towards Mathura Road for all type of motor vehicles, till further orders.

This order shall be published in the official gazette and affixed on the notice boards of the offices of traffic police and local police of the area for the information of the general public.

The concerned road owning/maintaining agencies shall erect corresponding mandatory/regulatory signboards indicating the restriction in the area for guidance and convenience of all concerned.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 18/11/2024.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

S. K. SINGH, Dy. Commissioner